



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 347]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 1979/कार्तिक 11, 1901

No. 347]

NEW DELHI. FRIDAY, NOVEMBER 2, 1979/KARTIKA 11, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

लोक सभा सचिवालय

प्रतिपत्र

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1979

सा०का०वि० 611 (अ)—संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ता) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाने हैं, जिन्हें उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार, राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष ने अनुमोदित और पुष्ट कर दिया है, अर्थात् :-

1. इन नियमों का नाम संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ता) संशोधन नियम, 1979 है।

2. संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ता) नियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के उपनियम (5) में, "विमान के टिकट का प्रतिपत्रण" शब्दों के स्थान पर "विमान के टिकट का प्रतिपत्रण और ऐसे मामलों में जहाँ नेत्रहीन या शारीरिक रूप से असमर्थ सदस्य ने वास्तव में वायुयान द्वारा यात्रा की है और उसके साथ वस्तुतः कोई परिचर था तो वह अपने प्रतिपत्रण के अतिरिक्त उस परिचर के विमान के टिकट का प्रतिपत्रण भी प्रस्तुत करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के विषय 17-ड के पञ्चसु निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"17व. (1) यदि कोई सदस्य इस प्रकार शारीरिक रूप से असमर्थ है कि उसे वायुयान द्वारा यात्रा में परिचर की अपेक्षा है तो वह, यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष को दिए जाने वाले आदेश के साथ, डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सकों के पैरल से एक प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा, जिसमें यह सत्यापित किया जाएगा कि असमर्थता स्थायी स्वरूप की है या अस्थायी स्वरूप की।

(2) यदि असमर्थता अस्थायी स्वरूप की है तो ऐसी असमर्थता की अवधि निम्नलिखित की जाएगी और प्रारम्भ में वह छह मास से अधिक की नहीं होगी।

(3) यदि सदस्य यह समझता है कि उपनियम (2) में निर्दिष्ट अवधि के पञ्चान भी उसे विमान द्वारा यात्रा के लिए परिचर की अपेक्षा है, तो वह उपनियम (1) में निर्दिष्ट चिकित्सकों के पैरल के समक्ष ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए, जिसे उपनियम (2) के उपबंध लागू होंगे, पुनः उपस्थित होगा।"

[एफ सं० 3/1/एम०एस०ए०/79]

श्रवतार सिंह रिबी, सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 1979

G.S.R. 611 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section after consultation with the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States, and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of the said section, namely :

1. These rules may be called the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Amendment Rules, 1979.

2. In the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957 (hereinafter referred to as the said Rules), in rule 3-A, in sub-rule (5), for the words "the counterfoil of the air ticket", the words the counterfoil of the air ticket and in cases where a blind or physically incapacitated Member had actually performed his journey by air and was actually accompanied by an attendant, he shall, in addition to his own counterfoil, produce the counterfoil of the air ticket of the attendant" shall be substituted.

3. After rule 17-E of the said Rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"17-F. (1) A Member who is so physically incapacitated as to require an attendant to accompany him by air shall, along with his application addressed to the Chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People, as the case may be, append therewith a certificate from a panel of doctors of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, certifying the nature of incapacity whether permanent or temporary.

(2) If the nature of the incapacity is temporary, the period of such incapacity shall be specified and shall not initially exceed six months.

(3) If the Member feels that an attendant is required for travel by air along with him even after the period referred to in sub-rule (2), the Member shall appear again before the panel of doctors referred to in sub-rule (1) for obtaining a certificate to which the provisions of sub-rule (2) shall apply."

[F. No. 3/1/MSA/79]

AVTAR SINGH RIKHY, Secy.